



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 भाद्र 1933 (श0)
(सं0 पटना 501) पटना, बृहस्पतिवार, 8 सितम्बर 2011

पत्रांक-2/बी0 टी0-1010/2009—693

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना

प्रेषक,

श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:-

वित्त विभाग

पटना-15, दिनांक 29 अगस्त 2011

विषय:- श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन) के नियंत्रणाधीन राज्य के 10 (दस) जिलों यथा- किशनगंज, कैमूर (भभूआ), सुपौल, लखीसराय, जमुई, अररिया, अरवल, बांका, शिवहर एवं शेखपुरा में गैर-योजना अन्तर्गत जिला नियोजनालय की स्थापना एवं 10 (दस) नियोजन पदाधिकारी, 8 (आठ) कनीय सांख्यिकी सहायक, 8 (आठ) निम्नवर्गीय लिपिक, 10 (दस) कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं 10 (दस) चतुर्थवर्गीय पदों के सृजन की स्वीकृति ।

आदेश :- स्वीकृत ।

2. निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन) बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन 10 (दस) जिलों में जिला नियोजनालय की स्थापना एवं 10 (दस) नियोजन पदाधिकारी, 8 (आठ) कनीय सांख्यिकी सहायक, 8 (आठ) निम्न वर्गीय लिपिक एवं 10 (दस) कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा 10 (दस) चतुर्थवर्गीय पदों की, 86,04,528 (छियासी लाख चार हजार पाँच सौ अठाईस) रुपये मात्र के अनुमानित वार्षिक व्यय पर कुल-10 (दस) राजपत्रित, एवं 36 (छत्तीस)

अराजपत्रित [20 (बीस) संविदा (अनुबंध) आधारित पद सहित)] कुल-46 (छियालीस) पदों की निम्नरूपेण सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

क्रमांक	स्वीकृत जिला नियोजनालय का नाम	सृजित पद का नाम एवं संख्या	वेतन	पदों पर अनुमानित वार्षिक व्यय
1	2	3	4	5
1.	जिला नियोजनालय, किशनगंज	जिला नियोजन पदाधिकारी-01 (एक) पद (राजपत्रित)	9300-34800+4800	35,08,800 (पैंतीस लाख आठ हजार आठ सौ) रुपये (कुल दस पदों के लिए)
		कनीय सांख्यिकी सहायक-01 (एक) पद (अराजपत्रित)	9300-34800+4200	20,92,800 (बीस लाख वेरानवे हजार आठ सौ) रुपये (कुल आठ पदों के लिए)
		निम्नवर्गीय लिपिक-01 (एक) पद (अराजपत्रित)	5200-20200+1900	12,06,528 (बारह लाख छः हजार पाँच सौ अठाईस) रुपये (कुल आठ पदों के लिए)
		कम्प्यूटर ऑपरेटर-01 (एक) पद [संविदा (अनुबंध) आधारित] (अराजपत्रित)	7730 (फिक्सड) अनुमानित	9,27,600 (नौ लाख सताईस हजार छः सौ) रुपये (कुल दस पदों के लिए)
		चतुर्थवर्गीय-01 (एक) पद [संविदा (अनुबंध) आधारित]	5740 (फिक्सड) अनुमानित	6,88,800 (छः लाख अठासी हजार आठ सौ) रुपये (कुल दस पदों के लिए)
2.	जिला नियोजनालय, कैमुर (भभूआ)	तथैव	तथैव	
3.	जिला नियोजनालय, सुपौल	तथैव	तथैव	
4.	जिला नियोजनालय, लखीसराय	तथैव	तथैव	
5.	जिला नियोजनालय, जमुई	तथैव	तथैव	
6.	जिला नियोजनालय, अररिया	तथैव	तथैव	
7.	जिला नियोजनालय, अरवल	तथैव	तथैव	

क्रमांक	स्वीकृत जिला नियोजनालय का नाम	सृजित पद का नाम एवं संख्या	वेतन	पदों पर अनुमानित वार्षिक व्यय
1	2	3	4	5
8.	जिला नियोजनालय, बांका	तथैव	तथैव	
9.	जिला नियोजनालय, शिवहर	जिला नियोजन पदाधिकारी-01 (एक) पद (राजपत्रित)	9300-34800+4800	
		कम्प्यूटर ऑपरेटर-01 (एक) पद [संविदा (अनुबंध) आधारित] (अराजपत्रित)	7730 (फिक्सड) अनुमानित	
		चतुर्थ वर्गीय-01 (एक) पद [संविदा (अनुबंध) आधारित]	5740 (फिक्सड) अनुमानित	
10.	जिला नियोजनालय, शेखपुरा	तथैव	तथैव	

3. कंडिका 2 (दो) में दर्शाए गए जिला नियोजनालयों की स्थापना एवं पदों पर कुल आवर्तक व्यय प्रतिवर्ष 86,04,528 (छियासी लाख चार हजार पाँच सौ अठाईस) रुपये अनुमानित है। इन पर होने वाला व्यय “मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-02-रोजगार सेवाये-101-रोजगार सेवाये-0004-रोजगार कार्यालय की स्थापना” मांग संख्या 26 विपत्र कोड एन0-2230021010004 गैर-योजना मद से विकलनीय होगा।

4. उक्त पदों के वेतन एवं कार्यालयों की स्थापना पर होने वाले अन्य मदों के व्यय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला नियोजनालयों के जिला नियोजन पदाधिकारी होंगे तथा श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

5. कंडिका-2 (दो) में दर्शाए गये पद [संविदा (अनुबंध) आधारित पद रहित] गैर-योजना अन्तर्गत होंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भूपेन्द्र कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 501-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>